



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1944 (श0)  
(सं0 पटना 982) पटना, बृहस्पतिवार, 17 नवम्बर, 2022

गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

कार्यालय आदेश  
15 नवम्बर, 2022

सं० स्था०/सा०-01-20/2022-188/सी०-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-14993, दिनांक- 26.08.2022 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या-06060114 प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्न वर्गीय लिपिक पद हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थी को परीक्ष्यमान निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर पुलिस मुख्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पी0बी0-1, ग्रेड पे-1900 के संगत वेतन स्तर-2 एवं अनुमान्य देय भत्तों के साथ नियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम	आयोग द्वारा आवंटित रोल नं०	आयोग द्वारा आवंटित सामान्य श्रेणी	जन्म तिथि	आवेदक का वास्तविक आरक्षण कोटि	आयोग द्वारा अनुशंसित आरक्षण कोटि
1	श्री सनोज कुमार	30003084	18783	08.01.1987	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाई जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी। नव नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक के वेतन का भुगतान शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के उपरान्त किया जाएगा।

3. योगदान के समय अभ्यर्थी को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. योगदान के समय अभ्यर्थी को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. नवनियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक दिनांक-22.11.2022 तक अपना योगदान बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में समर्पित करेंगे।

7. अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8. अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

9. पूर्व से सेवारत अभ्यर्थी विधिवत् रूप से विरमित/त्याग-पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् ही उनका योगदान स्वीकृत किया जाएगा।

आदेश से,  
अनिमेश पाण्डेय,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 982-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>